



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 153-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018 (BHADRA 20, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2018

संख्या 82/जी.एस.टी.-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 76/जीएसटी-2, दिनांक 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि ऐसे करदाताओं द्वारा, जिन्होंने हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 73/जीएसटी-2, दिनांक 06 अगस्त, 2018 के निबंधनों में माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) अभिप्राप्त किया है, जुलाई, 2017 से नवंबर, 2018 तक की अवधि के लिए फाइल की जाने वाली उक्त नियमों में **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में, 31 दिसंबर, 2018 को या उसके पहले दी जाएगी।"

आशिमा बराड़,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th September, 2018

No. 82/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner of State Tax, Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 76/GST-2, dated the 10th August, 2018, namely:—

2. In the said notification in the first paragraph, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules to be filed for the period from July, 2017 to November, 2018 by the taxpayers who have obtained Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) in terms of Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 73/GST-2, dated the 6th August, 2018, shall be furnished electronically through the common portal on or before the 31st day of December, 2018.”.

ASHIMA BRAR,
Excise and Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.